



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2194]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938

No. 2194]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2016

का.आ. 2893(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी संस्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 12 जून, 1999 में प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1611 तारीख 26 मई, 1999 के भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी के समतुल्य अधिकारी होने पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे निदेशित करती है कि संपदा अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा :-

सारणी

अधिकारी का नाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
संपदा अधिकारी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली ।	(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अवस्थित सभी परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण से संबंधित हैं या उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं । (ii) सभी परिसर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण से संबंधित हैं या उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और गाजियाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) में अवस्थित हैं ।

[फा. सं. 8(16)/2012-सेल-पीसी (जिल्द-3)]

सुनील बड़थवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th September, 2016

S.O. 2893(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Steel, dated the 26th May, 1999, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.1611, dated the 12th June, 1999, except as respect, things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being Officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Government, to be Estate Officer for the purpose of the said Act and further directs that the Estate Officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on such Officer by or under the said Act, within the local limits of its jurisdiction, in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table:—

TABLE

Designation of officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Estate Officer, Steel Authority of India Limited, Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi.	(i) All premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited located in the National Capital Territory of Delhi. (ii) All premises belonging to and under the administrative control of the Steel Authority of India Limited and situated in District of Ghaziabad, (Uttar Pradesh).

[F. No. 8(16)/2012-SAIL-PC (Vol. III)]

SUNIL BARTHWAL, Jt. Secy.